



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2015/श्रावण 1, 1937

No. 258]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2015/SARAVANA 1, 1937

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

**सं.13-सी0ए0 (परीक्षा)/नवंबर/2015:-** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार, दि काँसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इण्टरमीडिएट (आईपीसी) और फाईनल की परीक्षाएँ निम्नलिखित तिथियों तथा स्थानों पर होंगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी आवेदन करते हैं।

उसी प्रकार, रेगुलेशन 204 के अन्तर्गत पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम परीक्षा अर्थात्, मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कार्पोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट (आई0आर0एम0) और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन (आई0टी0एल0 एवं डब्लू0टी0ओ0) की परीक्षाएँ (जो कि इंस्टीट्यूट के सदस्यों के लिए खुली हैं) भी निम्नलिखित तिथियों तथा स्थानों (केवल भारत स्थित केन्द्रों) पर होंगी, बशर्ते कि, प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा में पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी आवेदन करते हैं।

**इण्टरमीडिएट (आईपीसी) परीक्षा :-**

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो काँसिल द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 28- ई (3) के अन्तर्गत अधिसूचित है, के अनुसार)

ग्रुप - I	2, 4, 6 और 8 नवंबर, 2015
ग्रुप - II	10, 13 और 15 नवंबर, 2015

(परीक्षा का समय :- दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

**फाईनल परीक्षा :-**

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो काँसिल द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 31 (ii) के अन्तर्गत अधिसूचित है, के अनुसार)

ग्रुप - I	1, 3, 5 और 7 नवंबर, 2015
ग्रुप - II	9, 12, 14 और 16 नवंबर, 2015

(परीक्षा का समय :- दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कॉर्पोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) परीक्षा :-

ग्रुप - I	9 और 12 नवंबर, 2015
ग्रुप - II	14 और 16 नवंबर, 2015

(परीक्षा का समय :- दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट (आई0आर0एम0) पाठ्यक्रम परीक्षा:-

माइयूल 1 से 4	9, 12, 14 और 16 नवंबर, 2015
---------------	-----------------------------

(परीक्षा का समय :- दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (आई0टी0एल0 एवं डब्लू0टी0ओ0) पाठ्यक्रम परीक्षा:-

ग्रुप - ए	2, 4 और 6 नवंबर, 2015
ग्रुप - बी	8, 10 और 13 नवंबर, 2015

(परीक्षा का समय :- दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

परीक्षा केन्द्र :-

(1) भारत में स्थित परीक्षा केन्द्र:- (सभी परीक्षाओं के लिये)

1.	आगरा	2.	अहमदाबाद	3.	अहमदनगर
4.	अजमेर	5.	अकोला	6.	अलापुजा
7.	अलीगढ़	8.	इलाहाबाद	9.	अलवर
10.	अम्बाला	11.	अमरावती	12.	अमृतसर
13.	आनन्द	14.	अनंतपुर	15.	आसनसोल
16.	औरंगाबाद	17.	बरेली	18.	भटिण्डा
19.	ब्यावर	20.	बेलगांव	21.	बेल्लारी
22.	बैंगलुरु	23.	बैरहामपुर	24.	भरतपुर
25.	भरुच	26.	भावनगर	27.	भीलवाड़ा
28.	भिवंडी	29.	भिवानी	30.	भोपाल
31.	भुवनेश्वर	32.	भुज	33.	बीकानेर
34.	विलासपुर	35.	चंडीगढ़	36.	चेन्नई
37.	चित्तौड़गढ़	38.	कोयम्बटूर	39.	कटक
40.	देहरादून	41.	दिल्ली/नई दिल्ली	42.	धनबाद
43.	धुले	44.	दुर्ग	45.	दुर्गापुर
46.	ईरनाकुलम	47.	ईरोड	48.	फरीदाबाद
49.	फतेहाबाद	50.	गाँधीधाम	51.	गाँधीनगर
52.	गाजियाबाद	53.	गोरखपुर	54.	गुन्टूर
55.	गुडगांव	56.	गुवाहाटी	57.	ग्वालियर
58.	हिसार	59.	हुबली	60.	हैदराबाद
61.	इच्छलकरंजी	62.	इन्दौर	63.	जबलपुर
64.	जयपुर	65.	जालन्धर	66.	जलगांव
68.	जम्मू	68.	जामनगर	69.	जमशेदपुर
70.	झाँसी	71.	झुंझुनू	72.	जींद
73.	जोधपुर	74.	कैथल	75.	काकीनाडा
76.	कन्नूर	77.	कानपुर	78.	करीमनगर
79.	करनाल	80.	किशनगढ़	81.	कोल्हापुर
82.	कोलकाता	83.	कोल्लम	84.	कोटा
85.	कोट्टायम	86.	कोझीखोड़	87.	कुंभाकोनम
88.	कुरनूल	89.	लातूर	90.	लखनऊ
91.	लुधियाना	92.	मदुरई	93.	मंगलोर
94.	मापुसा (गोवा)	95.	मड़गांव (गोवा)	96.	मथुरा
97.	मेरठ	98.	मुरादाबाद	99.	मुम्बई

100	मुजफ्फरनगर	101	मैसूर	102	नागपुर
103	नांदेड़	104	नासिक	105	नवी मुम्बई
106	नवसारी	107	निमुच	108	नैल्लोर
109	नौएडा	110	ओंगोल	111	पालक्कड़
112	पाली मारवार	113	पानीपत	114	पनवेल
115	पटियाला	116	पटना	117	पिम्परी-चिंचवाड
118	पोंडिचेरी	119	पुणे	120	रायपुर
121	राजमहेंद्रवारम	122	राजकोट	123	रांची
124	रतलाम	125	रेवाड़ी	126	रोहतक
127	राउरकेला	128	सहारनपुर	129	सेलम
130	सम्बलपुर	131	सांगली	132	संगरूर
133	सतारा	134	शिमला	135	सीकर
136	सिलीगुड़ी	137	सिरसा	138	षिवाकाषी
139	सोलापुर	140	सोनीपत	141	श्री गंगानगर
142	श्रीनगर	143	सूरत	144	सुरेन्द्रनगर
145	थाने	146	तिरुवन्तपुरम	147	थ्रीसूर
148	तिनसुकिया	149	तिरुचीरापल्ली	150	तिरुनेलवेली
151	तिरुपति	152	त्रिपुर	153	टूटीकोरन
154	उदयपुर	155	उडुपी	156	उज्जैन
157	वदोदरा	158	वापी	159	वाराणसी
160	वसई	161	वेल्लौर	162	विजयवाड़ा
163	विशाखापटनम्	164	वारंगल	165	यमुना नगर

(2) विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्र:- (केवल इण्टरमीडिएट (आईपीसी) एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये)

01. आबुधाबी 02. दुबई 03. काठमांडू 04. मस्कट

परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होना चाहिए। परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी सूचीकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "सचिव" दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है।

इण्टरमीडिएट (आईपीसी) एवं फाइनल परीक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र <http://icaexam.icaai.org> पर मुफ्त भर सकते हैं, (अर्थात् इण्टरमीडिएट (आईपीसी) एवं फाइनल परीक्षार्थियों द्वारा अगर आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे गये हों तो ` 1000/-आवेदन पत्र शुल्क नहीं लिया जायेगा) अन्यथा निर्धारित प्रारूप वाले फार्म पर, जिसकी कॉपी उप सचिव (परीक्षा) दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया, आईसीएआई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 से ` 1000/-शुल्क के साथ इण्टरमीडिएट (आईपीसी) एवं फाइनल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कार्पोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्र केवल मुद्रित आवेदन पत्र पर ही भरे जाएंगे, जो कि, `100/-प्रति आवेदन पत्र भुगतान पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नकद भुगतान करने पर 4 अगस्त, 2015 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

परीक्षा आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ किसी भी सूचीकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह उप सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 25 अगस्त, 2015 तक पहुँच जाये। तथापि, परीक्षा आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली कार्यालय में 25 अगस्त, 2015 के बाद तथा 1 सितम्बर, 2015 तक ` 600/-विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली व विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ईरनाकुलम, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, नागपुर, पूना, सूरत, थाने एवं वदोदरा में 1 सितम्बर, 2015 तक विलम्ब शुल्क के साथ स्वयं आकर भी दिया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का लाभ लेने की सलाह दी जाती है। 1 सितम्बर, 2015 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पूर्ण रूप से भरे हुए, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स - मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कार्पोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट (आई0आर0एम0) और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (आई0टी0एल0 एवं डब्लू0टी0ओ0) परीक्षाओं के आवेदन पत्र केवल इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं।

इण्टरमीडिएट (आईपीसी) एवं फाइनल परीक्षा के परीक्षार्थी जो कि <http://icaiaexam.icaai.org> पर दिनांक 4 अगस्त, 2015 से 25 अगस्त, 2015 तक ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान अपने वीजा अथवा मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा करते हैं, तो उनसे आवेदन पत्र शुल्क ` 1000/- नहीं लिया जायेगा। तथापि, यदि वे 25 अगस्त, 2015 के बाद तथा 1 सितम्बर, 2015 तक ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो उन्हें ` 600/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान विलम्ब शुल्क के रूप में करना होगा।

विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है :

इण्टरमीडिएट (आईपीसी) परीक्षा	
दोनों ग्रुपों के लिये / ईकाई 9	` 1900/-
केवल एक ग्रुप के लिये / ईकाई 1 से 8	` 1200/-
फाइनल परीक्षा	
दोनों ग्रुपों के लिये	` 2700/-
केवल एक ग्रुप के लिये	` 1500/-

मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कॉर्पोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) परीक्षा,	
दोनों ग्रुपों के लिये	` 2000/-
केवल एक ग्रुप के लिये	` 1000/-

इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट (आई.आर.एम.) परीक्षा	` 2000/-
-------------------------------------------------------	----------

इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (आईटीओएलओ एवं डब्ल्यूटीओओ) परीक्षा	
दोनों ग्रुपों के लिये	` 4000/-
केवल एक ग्रुप के लिये	` 2000/-

दुबई/आबुधाबी/मस्कट परीक्षा केन्द्र से बैठने वाले इण्टरमीडिएट (आईपीसी) एवं फाइनल के परीक्षार्थियों को यू0एस0 डॉलर 420 और यू0एस0 डॉलर 480 क्रमशः या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों या एक ईकाई में बैठ रहे हों।

काठमांडू परीक्षा केन्द्र से बैठने वाले इण्टरमीडिएट (आईपीसी) एवं फाइनल के परीक्षार्थियों को भारतीय मुद्रा में ` 2700/- और ` 3600/- क्रमशः या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों या एक ईकाई में बैठ रहे हों।

#### हिन्दी में उत्तर लिखने की ऐच्छिकता

इण्टरमीडिएट (आईपीसी) एवं फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है। तथापि पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स - मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कॉर्पोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर केवल अंग्रेजी में ही लिखना है।

वी. सागर, सचिव  
[विज्ञापन III/4/असा./104/15(146)]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA***[Set up by an Act of Parliament]***NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2015

**No. 13-CA (EXAM)/N/2015:** In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Intermediate (IPC) and Final examinations will be held on the dates given below at the following places provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Similarly, Examinations in Post Qualification Courses under Regulations 204, viz.: Management Accountancy Course (MAC) Part – I, Corporate Management Course (CMC) Part – I, Tax Management Course (TMC) Part – I, Insurance and Risk Management (IRM), and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL & WTO) examinations (which are open to the members of the Institute) will be held on the dates given below at the above places (centres in India only) provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each of the above places.

**INTERMEDIATE (IPC) EXAMINATION**

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 E (3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988]

<b>Group-I: 2nd, 4th, 6th &amp; 8th November 2015</b>
-------------------------------------------------------

<b>Group-II: 10th, 13th &amp; 15th November 2015</b>
------------------------------------------------------

(Afternoon Session: 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

**FINAL EXAMINATION**

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (ii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

<b>Group -I: 1st, 3rd, 5th &amp; 7th November 2015</b>
--------------------------------------------------------

<b>Group -II: 9th, 12th, 14th &amp; 16th November 2015</b>
------------------------------------------------------------

(Afternoon Session: 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

**MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC) PART - I, CORPORATE MANAGEMENT COURSE (CMC) PART – I, TAX MANAGEMENT COURSE (TMC) PART – I EXAMINATIONS**

<b>Group-I: 9th &amp; 12th November 2015</b>
----------------------------------------------

<b>Group-II: 14th &amp; 16th November 2015</b>
------------------------------------------------

(Afternoon Session: 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

**INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION**

<b>Modules I to IV</b>	<b>9th, 12th, 14th &amp; 16th November 2015</b>
------------------------	-------------------------------------------------

(Afternoon Session: 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

**INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION (ITL&WTO) EXAMINATION**

<b>Group A</b>	<b>2nd, 4th &amp; 6th November 2015</b>
----------------	-----------------------------------------

<b>Group B</b>	<b>8th, 10th &amp; 13th November 2015</b>
----------------	-------------------------------------------

(Afternoon Session: 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

**PLACES OF EXAMINATION CENTRES IN INDIA: (FOR ALL EXAMINATIONS)**

1	AGRA	2	AHMEDABAD	3	AHMEDNAGAR
4	AJMER	5	AKOLA	6	ALAPPUZHA
7	ALIGARH	8	ALLAHABAD	9	ALWAR
10	AMBALA	11	AMRAVATI	12	AMRITSAR
13	ANAND	14	ANANTAPUR	15	ASANSOL
16	AURANGABAD	17	BAREILLY	18	BATHINDA
19	BEAWAR	20	BELGAUM	21	BELLARY
22	BENGALURU	23	BERHAMPORE	24	BHARATPUR
25	BHARUCH	26	BHAVNAGAR	27	BHILWARA
28	BHIWANDI	29	BHIWANI	30	BHOPAL
31	BHUBANESWAR	32	BHUJ	33	BIKANER

34	BILASPUR	35	CHANDIGARH	36	CHENNAI
37	CHITTORGARH	38	COIMBATORE	39	CUTTACK
40	DEHRADUN	41	DELHI / NEW DELHI	42	DHANBAD
43	DHULE	44	DURG	45	DURGAPUR
46	ERNAKULAM	47	ERODE	48	FARIDABAD
49	FATEHABAD	50	GANDHIDHAM	51	GANDHINAGAR
52	GHAZIABAD	53	GORAKHPUR	54	GUNTUR
55	GURGAON	56	GUWAHATI	57	GWALIOR
58	HISAR	59	HUBLI	60	HYDERABAD
61	ICHALKARANJI	62	INDORE	63	JABALPUR
64	JAIPUR	65	JALANDHAR	66	JALGAON
67	JAMMU	68	JAMNAGAR	69	JAMSHEDPUR
70	JHANSI	71	JHUNJHUNU	72	JIND
73	JODHPUR	74	KAITHAL	75	KAKINADA
76	KANNUR	77	KANPUR	78	KARIMNAGAR
79	KARNAL	80	KISHANGARH	81	KOLHAPUR
82	KOLKATA	83	KOLLAM	84	KOTA
85	KOTTAYAM	86	KOZHIKODE	87	KUMBAKONAM
88	KURNOOL	89	LATUR	90	LUCKNOW
91	LUDHIANA	92	MADURAI	93	MANGALORE
94	MAPUSA (GOA)	95	MARGAO (GOA)	96	MATHURA
97	MEERUT	98	MORADABAD	99	MUMBAI
100	MUZAFFARNAGAR	101	MYSORE	102	NAGPUR
103	NANDED	104	NASHIK	105	NAVI MUMBAI
106	NAVSARI	107	NEEMUCH	108	NELLORE
109	NOIDA	110	ONGOLE	111	PALAKKAD
112	PALI MARWAR	113	PANIPAT	114	PANVEL
115	PATIALA	116	PATNA	117	PIMPRI-CHINCHWAD
118	PONDICHERRY	119	PUNE	120	RAIPUR
121	RAJAMAHENDRAVARAM	122	RAJKOT	123	RANCHI
124	RATLAM	125	REWARI	126	ROHTAK
127	ROURKELA	128	SAHARANPUR	129	SALEM
130	SAMBALPUR	131	SANGLI	132	SANGRUR
133	SATARA	134	SHIMLA	135	SIKAR
136	SILIGURI	137	SIRSA	138	SIVAKASI
139	SOLAPUR	140	SONEPAT	141	SRI GANGANAGAR
142	SRINAGAR	143	SURAT	144	SURENDRANAGAR
145	THANE	146	THIRUVANANTHAPURAM	147	THRISSUR
148	TINSUKIA	149	TIRUCHIRAPALLI	150	TIRUNELVELI
151	TIRUPATI	152	TIRUPUR	153	TUTICORIN
154	UDAIPUR	155	UDUPI	156	UJJAIN
157	VADODARA	158	VAPI	159	VARANASI
160	VASAI	161	VELLORE	162	VIJAYAWADA
163	VISAKHAPATNAM	164	WARANGAL	165	YAMUNA NAGAR

**PLACES OF EXAMINATION CENTRES OVERSEAS:  
(FOR INTERMEDIATE (IPC) AND FINAL EXAMINATIONS ONLY)**

1) ABU DHABI	2) DUBAI	3) KATHMANDU	4) MUSCAT
--------------	----------	--------------	-----------

Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only. The Demand Drafts may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of **The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.**

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to Intermediate (IPC) and Final examinations are required to be made either online at <http://icaixam.icaai.org> free of cost (i.e. ` 1000/- for Intermediate (IPC) & Final candidates for the cost of application form shall not be charged if applications are filled in online) or in the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the **Deputy Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, 'ICAI BHAWAN',** Indraprastha Marg, New Delhi – 110002 on payment of ` 1000/- per application form in respect of Intermediate (IPC) and Final Examination candidates, whereas the Examination application forms for Management Accountancy Course (MAC) Part – I, Corporate Management Course (CMC) Part – I, Tax Management Course (TMC) Part – I, Insurance and Risk Management (IRM), International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL & WTO) examination are to be filled up in the paper based form only and is priced at ` 100/- per application form. The forms shall also be made available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained there from on cash payment on or from **4th August, 2015.**

Applications together with the prescribed fee by Demand Draft of any Scheduled Bank may be sent so as to reach the Deputy Secretary (Examinations) at New Delhi not later than **25th August, 2015.** However, applications will also be received at Delhi Office after **25th August, 2015** and upto **1st September, 2015** with late fee of ` 600/-. Applications for the students' examinations only duly filled in will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Ernakulam, Hyderabad, Indore, Jaipur, Nagpur, Pune, Surat, Thane and Vadodara upto **1st September, 2015.** Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility. Applications received after **1st September, 2015** shall not be entertained under any circumstances.

However, application forms duly completed for the Post Qualification Course Examinations i.e. Management Accountancy Course (MAC) Part – I, Corporate Management Course (CMC) Part – I, Tax Management Course (TMC) Part – I, Insurance and Risk Management (IRM), International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL & WTO) will be received **only** at the New Delhi office of the Institute.

**The candidates who apply online at <http://icaixam.icaai.org> from 4th August, 2015 to 25th August, 2015 and remit the fee online by using either VISA or MASTER Credit/ Debit Card shall not be charged ` 1000/- in case of Intermediate (IPC) & Final examination (i.e. cost of application form fee). They shall however, be required to remit additional ` 600/- towards late fee in case the application online is made after 25th August 2015 and upto 1st September, 2015.**

The fees payable for the various examinations are as under:

INTERMEDIATE (IPC)	
For Both the Groups / Unit - 9	` 1900/-
For one of the Groups / Unit 1 to 8	` 1200/-
FINAL EXAMINATION	
For Both the Groups	` 2700/-
For one of the Groups	` 1500/-
MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC) PART - 1, CORPORATE MANAGEMENT COURSE (CMC) PART – I, TAX MANAGEMENT COURSE (TMC) PART – I EXAMINATIONS	
For Both the Groups	` 2000/-
For one of the Groups	` 1000/-
INSURANCE & RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION	
	` 2000/-

<b>INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION (ITL &amp; WTO) EXAMINATION:</b>	
For Both the Groups	` 4000/-
For one of the Groups	` 2000/-

Candidates of Intermediate (IPC) and Final examination opting for Dubai /Abu Dhabi / Muscat are required to remit, US\$ 420 and US\$ 480 respectively or their equivalent Indian Currency irrespective of whether a candidates appears in a group or in both the groups or in a unit.

Candidates of Intermediate (IPC) and Final Examinations opting for Examination Centre at Kathmandu are required to remit Indian ` 2700/- and Indian ` 3600/- respectively or their equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups or in a unit.

### **OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI:**

Candidates of Intermediate (IPC) and Final Examinations will be allowed to opt for Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information Sheets attached to the relevant application form. However the medium of Examinations will be only English in respect of Post Qualification Courses viz.: Management Accountancy Course (MAC) Part – I, Corporate Management Course (CMC) Part – I, Tax Management Course (TMC) Part – I, Insurance and Risk Management (IRM) Examination and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL & WTO) Examinations.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./104/15(146)]

### **अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

**नं०13-सी०ए० (परीक्षा)/सी.पी.टी./दिसम्बर/2015:-** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार, दि काँसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि, **सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.)** की परीक्षा **रविवार, 13 दिसम्बर, 2015** को दो सत्रों में निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बर्षर्त कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी आवेदन करते हैं।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 25 डी (3) के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जायेगी।

<b>सत्र-I</b> (प्रातः कालीन सत्र)	<b>प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक (भारतीय समयानुसार)</b> खंड क – लेखांकन के मूल तत्व खंड ख – वाणिज्यिक विधियां
<b>सत्र-II</b> (दोपहर का सत्र)	<b>दोपहर 2.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक (भारतीय समयानुसार)</b> खंड ग – सामान्य अर्थशास्त्र खंड घ – परिमाणात्मक अभिक्षमता

**परीक्षा केन्द्र :- (भारत में स्थित)**

1.	आगरा	2.	अहमदाबाद	3.	अहमदनगर
4.	अजमेर	5.	अकोला	6.	अलापुजा
7.	अलीगढ़	8.	इलाहाबाद	9.	अलवर
10.	अम्बाला	11.	अमरावती	12.	अमृतसर
13.	आनन्द	14.	अनंतपुर	15.	आसनसोल
16.	औरंगाबाद	17.	बरेली	18.	भटिण्डा
19.	ब्यावर	20.	बेलगांव	21.	बेल्लारी



22.	बेंगलुरु	23.	बेरहमपुर	24.	भागलपुर
25.	भरतपुर	26.	भरुच	27.	भावनगर
28.	भीलवाड़ा	29.	भिवानी	30.	भोपाल
31.	भुवनेश्वर	32.	भुज	33.	बीकानेर
34.	विलासपुर	35.	चंडीगढ़	36.	चेन्नई
37.	चित्तौड़गढ़	38.	कोयम्बटूर	39.	कटक
40.	देहरादून	41.	दिल्ली / नई दिल्ली	42.	धनबाद
43.	धुले	44.	डुंडलोड	45.	दुर्ग
46.	दुर्गापुर	47.	ईरनाकुलम	48.	ईरोड
49.	फरीदाबाद	50.	फतेहाबाद	51.	गौधीधाम
52.	गौधीनगर	53.	गाजियाबाद	54.	गोरखपुर
55.	गुन्टूर	56.	गुडगांव	57.	गुवाहाटी
58.	ग्वालियर	59.	हिसार	60.	हुबली
61.	हैदराबाद	62.	इन्दौर	63.	जबलपुर
64.	जयपुर	65.	जालन्धर	66.	जलगांव
67.	जम्मू	68.	जामनगर	69.	जमशेदपुर
70.	झाँसी	71.	झुंझुनू	72.	जोधपुर
73.	कैथल	74.	काकीनाडा	75.	कन्नूर
76.	कानपुर	77.	कशीमनगर	78.	करनाल
79.	किशनगढ़	80.	कोल्हापुर	81.	कोलकाता
82.	कोल्लम	83.	कोटा	84.	कोट्टायम
85.	कोझीखोड	86.	कुंभाकोनम	87.	कुरनूल
88.	लातूर	89.	लखनऊ	90.	लुधियाना
91.	मदुरई	92.	मंगलोर	93.	मापुसा (गोवा)
94.	मडगांव (गोवा)	95.	मथुरा	96.	मेरठ
97.	मुरादाबाद	98.	मुम्बई	99.	मुजफ्फरनगर
100.	मैसूर	101.	नागपुर	102.	नांदेड़
103.	नासिक	104.	नवी मुम्बई	105.	नवसारी
106.	निमुच	107.	नैल्लोर	108.	नौएडा
109.	ओंगोल	110.	पालक्कड़	111.	पाली मारवार
112.	पानीपत	113.	पनवेल	114.	पटियाला
115.	पटना	116.	पिम्परी-चिंचवाड	117.	पोंडिचेरी
118.	पुणे	119.	रायपुर	120.	राजामहेंद्रवारम
121.	राजकोट	122.	रांची	123.	रतलाम
124.	रेवाड़ी	125.	रोहतक	126.	राउरकेला
127.	सहारनपुर	128.	सेलम	129.	सम्बलपुर
130.	सांगली	131.	संगरूर	132.	सतारा
133.	शिमला	134.	सीकर	135.	सिलीगुड़ी
136.	सिरसा	137.	षिवाकाषी	138.	सोलापुर
139.	सोनीपत	140.	श्री गंगानगर	141.	श्रीनगर
142.	सूरत	143.	सुरेन्द्रनगर	144.	थाने
145.	तिरुवन्तपुरम	146.	थ्रीसूर	147.	तिनसुकिया
148.	तिरुचीरापल्ली	149.	तिरुनेलवेली	150.	तिरुपति
151.	त्रिपुर	152.	टूटीकोरन	153.	उदयपुर
154.	उडुपी	155.	उज्जैन	156.	वदोदरा
157.	वापी	158.	वाराणसी	159.	वसई
160.	वेल्लौर	161.	विजयवाड़ा	162.	विशाखापटनम्
163.	वारंगल	164.	यमुना नगर		

विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्र :-

- |            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 1. आबुधाबी | 2. दुबई | 3. काठमांडू |
|------------|---------|-------------|

परिषद अपने विषेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना किसी कारण दिये रद्द कर सकती है।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन, निर्धारित प्रारूप जो कि सूचना विवरणिका में संलग्न है, में ही किया जाना चाहिए, जो कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के **उप सचिव (परीक्षा)** के आईसीएआई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 स्थित कार्यालय से `1500/-(` 500/-परीक्षा शुल्क व ` 1000/-आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका हेतु) प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। आबुधाबी और दुबई परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क यू0एस0 \$170/- (यू0एस0 \$150/-परीक्षा शुल्क व यू0एस0 \$20/- आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका हेतु) या इसके समकक्ष भारतीय मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा। काठमांडु (नेपाल) से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क भारतीय मुद्रा `1850/-(` 850/-परीक्षा शुल्क व ` 1000/-आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका हेतु) या इसके समकक्ष विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा। सूचना विवरणिका जिसमें सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) का आवेदन पत्र भी है में परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है, अतः आवेदन पत्र जमा करते समय किसी अन्य शुल्क के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सूचना विवरणिका जिसमें आवेदन पत्र भी संलग्न है इन्स्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नगद भुगतान करने पर **6 अक्टूबर, 2015** से प्राप्त किये जा सकते हैं।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह **उप सचिव (परीक्षा)** के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में **27 अक्टूबर, 2015** तक पहुँच जाये। **27 अक्टूबर, 2015** के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वयं आकर भी इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली कार्यालय व विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, ईरनाकुलम, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, नागपुर, पूना, सूरत, थाने एवं वदोदरा में **27 अक्टूबर, 2015** तक जमा कराया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। **यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्रों को 27 अक्टूबर, 2015 के बाद विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार करने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।** अतः सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र उप सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली कार्यालय में इस प्रकार भेजा जाये कि वह **27 अक्टूबर, 2015** तक प्राप्त हो जाये।

जो परीक्षार्थी <http://icaiaexam.icaai.org> पर दिनांक **6 अक्टूबर, 2015** (प्रातः 10.00 बजे) से **27 अक्टूबर, 2015** (सांय 5.30 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान अपने वीजा अथवा मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा करते हैं, तो उनसे **आवेदन पत्र शुल्क ` 1000/- नहीं लिया जायेगा।**

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए है जो पहले से इस परीक्षा के लिए दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया में, **1 अक्टूबर, 2015** या इससे पहले रजिस्टर्ड हैं व योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं।

#### **प्रश्नपत्र पुस्तिका की भाषा:-**

सामान्य प्रवीणता परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम की प्रश्न पत्र पुस्तिका द्वारा भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी विवरणिका में उपलब्ध है।

वी. सागर, सचिव  
[विज्ञापन III/4/असा./104/15(146)]

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2015

**No. 13-CA (EXAM)/CPT/December/2015.**—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the **Common Proficiency Test** will be held on **Sunday, 13th December, 2015** in two sessions as below, at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

[This Common Proficiency Test will be conducted as per provisions of Regulation 25D (3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

<b>First Session (i.e. Morning Session)</b>	<b>10.30 AM to 12.30 PM (IST)</b> Section - A Fundamentals of Accounting Section - B Mercantile Laws
<b>Second Session (i.e. Afternoon Session)</b>	<b>2.00 PM to 4.00 PM (IST)</b> Section - C General Economics Section - D Quantitative Aptitude

**PLACES OF EXAMINATION CENTRES IN INDIA:**

1	AGRA	2	AHMEDABAD	3	AHMEDNAGAR
4	AJMER	5	AKOLA	6	ALAPPUZHA
7	ALIGARH	8	ALLAHABAD	9	ALWAR
10	AMBALA	11	AMRAVATI	12	AMRITSAR
13	ANAND	14	ANANTAPUR	15	ASANSOL
16	AURANGABAD	17	BAREILLY	18	BATHINDA
19	BEAWAR	20	BELGAUM	21	BELLARY
22	BENGALURU	23	BERHAMPORE	24	BHAGALPUR
25	BHARATPUR	26	BHARUCH	27	BHAVNAGAR
28	BHILWARA	29	BHIWANI	30	BHOPAL
31	BHUBANESWAR	32	BHUJ	33	BIKANER
34	BILASPUR	35	CHANDIGARH	36	CHENNAI
37	CHITTORGARH	38	COIMBATORE	39	CUTTACK
40	DEHRADUN	41	DELHI / NEW DELHI	42	DHANBAD
43	DHULE	44	DUNDLOD	45	DURG
46	DURGAPUR	47	ERNAKULAM	48	ERODE
49	FARIDABAD	50	FATEHABAD	51	GANDHIDHAM
52	GANDHINAGAR	53	GHAZIABAD	54	GORAKHPUR
55	GUNTUR	56	GURGAON	57	GUWAHATI
58	GWALIOR	59	HISAR	60	HUBLI
61	HYDERABAD	62	INDORE	63	JABALPUR
64	JAIPUR	65	JALANDHAR	66	JALGAON
67	JAMMU	68	JAMNAGAR	69	JAMSHEDPUR
70	JHANSI	71	JHUNJHUNU	72	JODHPUR
73	KAITHAL	74	KAKINADA	75	KANNUR
76	KANPUR	77	KARIMNAGAR	78	KARNAL
79	KISHANGARH	80	KOLHAPUR	81	KOLKATA
82	KOLLAM	83	KOTA	84	KOTTAYAM
85	KOZHIKODE	86	KUMBakonam	87	KURNOOL
88	LATUR	89	LUCKNOW	90	LUDHIANA
91	MADURAI	92	MANGALORE	93	MAPUSA (GOA)
94	MARGAO (GOA)	95	MATHURA	96	MEERUT
97	MORADABAD	98	MUMBAI	99	MUZAFFARNAGAR
100	MYSORE	101	NAGPUR	102	NANDED
103	NASHIK	104	NAVI MUMBAI	105	NAVSARI
106	NEEMUCH	107	NELLORE	108	NOIDA
109	ONGOLE	110	PALAKKAD	111	PALI MARWAR
112	PANIPAT	113	PANVEL	114	PATIALA
115	PATNA	116	PIMPRI-CHINCHWAD	117	PONDICHERRY
118	PUNE	119	RAIPUR	120	RAJAMAHENDRAVARAM
121	RAJKOT	122	RANCHI	123	RATLAM
124	REWARI	125	ROHTAK	126	ROURKELA
127	SAHARANPUR	128	SALEM	129	SAMBALPUR
130	SANGLI	131	SANGRUR	132	SATARA
133	SHIMLA	134	SIKAR	135	SILIGURI
136	SIRSA	137	SIVAKASI	138	SOLAPUR

139	SONEPAT	140	SRI GANGANAGAR	141	SRINAGAR
142	SURAT	143	SURENDRANAGAR	144	THANE
145	THIRUVANANTHAPURAM	146	THRISSUR	147	TINSUKIA
148	TIRUCHIRAPALLI	149	TIRUNELVELI	150	TIRUPATI
151	TIRUPUR	152	TUTICORIN	153	UDAIPUR
154	UDUPI	155	UJJAIN	156	VADODARA
157	VAPI	158	VARANASI	159	VASAI
160	VELLORE	161	VIJAYAWADA	162	VISAKHAPATNAM
163	WARANGAL	164	YAMUNA NAGAR		

#### **PLACES OF EXAMINATION CENTRES OVERSEAS:**

(1) ABU DHABI (2) DUBAI (3) KATHMANDU

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to Common Proficiency Test is required to be made in the relevant prescribed form as contained in the Information Brochure, which may be obtained from the **Deputy Secretary (Examinations)**, The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110002 on payment of ` 1500/- ( ` 500/- towards examination fee and ` 1000/- towards cost of application form and Information brochure) per application form. The fee for candidates opting for Abu Dhabi and Dubai, centres will be US \$170 (US \$ 150 towards examination fee and US \$ 20 towards cost of application form and information brochure) or its equivalent Indian Currency. The fee for the candidates opting for Kathmandu centre are required to remit INR.1850/- (INR 850/- towards examination fee and INR 1000/- towards the cost of application form and information brochure) or its equivalent foreign Currency. Since the cost of Information brochure containing Common Proficiency Test application form includes the examination fee, no separate fee is required to be remitted at the time of submitting the filled in application form. The Information brochure containing Common Proficiency Test application form will also be available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained there from on cash payment on or from **6th October, 2015**.

Common Proficiency Test application forms duly filled in may be sent so as to reach the **Deputy Secretary (Examinations)** at New Delhi not later than **27th October, 2015**. Applications received after **27th October, 2015** shall not be entertained under any circumstances. Applications duly filled in will be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Ernakulam, Hyderabad, Indore, Jaipur, Nagpur, Pune, Surat, Thane and Vadodara upto **27th October, 2015**. Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility. **It may be noted that there is no provision for acceptance of application forms after 27th October, 2015 with late fee.**

The candidates who fill up the examination application form **online** at <http://icaiaexam.icaai.org> from **6th October, 2015 (10.00 hrs) to 27th October, 2015 (17.30 hrs)** and remit the fee online by using either VISA or MASTER Credit / Debit Card **shall not be charged ` 1000/-** (i.e. cost of application form fee).

**The aforesaid Common Proficiency Test (CPT) is open only to students registered with the Institute of Chartered Accountants of India for the Common Proficiency Course on or before 1st October, 2015 and fulfill the requisite eligibility conditions.**

#### **QUESTION PAPER BOOKLET LANGUAGE:**

Common Proficiency Test is an objective type multiple choice questions based examination. Candidates will be allowed to opt for Hindi medium Question Paper Booklet for answering the questions. Detailed information will be found given in the Information brochure.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT-III/4/Ext./104/15(146)]